



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1025) पटना, मंगलवार, 3 जून 2025

परिवहन विभाग

अधिसूचना

2 जून 2025

सं0-05/स्था0-146/2007 (खंड-I)-4523—आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त पत्रांक-102, दिनांक-14.05.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता, मुंगेर-सह-आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

सं0-05/स्था0-146/2007 (खंड-I)-4524—आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा से प्राप्त पत्रांक-2257, दिनांक-26.04.2025 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृत्यानन्द रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1025-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>